

**@Shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक- 03.09.2021**

**थाना बण्डा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,**

**धोखाधडी/ठगी करने वाले 05 शातिर अपराधी / लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार,**

**चोरी के आभूषण, एवं नगदी सहित अन्य माल बरामदा**

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व श्री बी.एस. वीर कुमार क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान शातिर अपराधियों की निगरानी व रोकथाम जुर्म जरायम आदि में श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के कुशल नेतृत्व में थाना बण्डा को बड़ी सफलता मिली।

आज दिनांक 03.09.2021 को उ०नि० पवन सिंह मय हमराही कर्म०गण के क्षेत्र में मामूर थे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 27.08.2021 को जिन मुल्जिमो द्वारा पोहकरपुर के रहने वाले रामसिंह पुत्र रामभरोसे के साथ धोखाधडी कर रूपये लेकर सुनासिर नाथ मन्दिर में शादी कराने और दिनांक 2021की रात में .28.08दुल्हन द्वारा नशा खिलाकर घर से रूपये व कीमती सामन लेकर फरार हो गये थे। वह रोडवेज बस स्टैण्ड पर कहीं जाने की फिराक में खडे है। इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पर मु०अ०सं०-576/2021 धारा 420/406/328 भादवि वादी श्री राम सिंह पुत्र रामभरोसे नि० ग्रा० पोहकरपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा पंजीकृत कराया गया है। इस सूचना पर उ०नि० पवन सिंह मय हमराही फोर्स व मुखबिर खास के रोडवेज बस स्टैण्ड शाहजहाँपुर पहुँचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि जो सामने महिला –पुरुष साथ में खडे है, ये वही लोग है। पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्तियों को मौके पर ही पकड लिया, जिनके पास से धोखाधडी/ठगी किये रूपये-माल/जेवरात बरामद हुए, पकडे गये व्यक्तियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर सभी अभियुक्तो ने एक स्वर बताया कि हम लोग शादी कराने के लिए रूपये लेते है एवं लडकी /दुल्हन द्वारा रात में दुल्हे और उसके परिजनो को खाने मे नशीली दवाई देकर रूपये व कीमती सामान आदि लेकर फरार हो जाते है। उक्त अभियुक्तो के कब्जे से धोखाधडी /ठगी का एक अदद मोवाईल लावा कंपनी ,दो जोड पायल सफेद धातु व एक अदद गले की चैन सुनहरी धातु तथा एक अंगूठी सुनहरी धातुएक जोड फैन्सी टाप्स सुनहरी धातु , रूपये 48500 तथा कुलबरामद हुए है। जिनके द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. पिन्टू यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी गाव सिकरानिया थाना बण्डा जिला शाहजहापुर,
2. भरत शाह उर्फ रफीक अहमद उर्फ गोपाल ठाकुर पुत्र राजू शाह निवासी गाव साठी नम्मी चौक थाना साठी जिला विठिया बिहार,
3. रागिनी पुत्री विनोद पत्नी भरत शाह निवासी गाव साठी नम्मी चौक थाना साठी जिला विठिया बिहार,
4. खड्दर इस्लाम पुत्र अशफाक निवासी मौहल्ला गायत्रीनगर थाना बण्डा जिला शाहजहापुर,
5. हरद्वारी पुत्र स्वभोलाराम निवासी मौहल्ला रामनगर निकट करवलान थाना बण्डा जिला शाहजहापुर 0।

## 2.आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 576/2021 धारा /406/420328/381/411 थाना बण्डा बनाम पिन्टू यादव आदि 05 नफर उपरोक्त

### ➤ चोरी किया माल बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद मोवाईल लावा कंपनी ,दो जोड पायल सफेद धातु व एक अदद गले की चैन सुनहरी धातु तथा एक अंगूठी सुनहरी धातुरूपये 48500 एक जोड फैन्सी टाप्स सुनहरी धातु तथा कुल , ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- उ0नि0 श्री पवन सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- मुख्य आरक्षी 69 अरविन्द कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- आरक्षी 2114 गौरव मलिक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- आरक्षी 1166 मोहित भाटी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 6- आरक्षी 1962 गौरव शर्मा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 7- आरक्षी 1871 कपिल गोस्वामी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 8- महिला आरक्षी 1695 सुनीता थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

